



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 04 दिसम्बर, 2020 / 13 मार्गशीर्ष, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th November, 2020

No. HFW-B(B)1-15/2019.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of faculty posts in the Departments/Specialties as shown against each in Dr. RPGMC Tanda, District Kangra, Himachal Pradesh with immediate effect, in the public interest as under:—

Sl. No.	Category with the name of Specialty/ Department	No. of post created	Pay Scale
1.	Associate Professor in the Department of Pathology	01 (ONE)	Rs. 37400-67000+GP of Rs. 8900 + 400 Special Allowance.
2.	Assistant Professor in the Department of General Surgery	01 (ONE)	Rs. 37400-67000+GP of Rs. 8900
3.	Assistant Professor in the Department of General Medicine	02 (TWO)	Rs. 37400-67000+GP of Rs. 8900

The above mentioned posts shall be filled up in accordance with the R&P rules under the Department of Medical Education & Research, Himachal Pradesh.

This issues with the prior concurrence of the Finance Department in respect of posts mentioned at serial number 1 and 2 above obtained *vide* their UO No. 55179127-Fin- F/2020, dated 19-11-2020.

By order,
AMITABH AWASTHI,
Secretary (Health).

कार्यालय उपायुक्त किन्नौर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

दिनांक: 29 जून, 2020

संख्या: कनर-परिसीमन/2015-2020-II-2941-3025.—मैं, गोपाल चन्द, उपायुक्त, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 8 व 77 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, 5, 6 व 8 में अंकित प्रावधान व विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)/2020-39044-55 दिनांक 23-06-2020 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देश का अनुसरण करते हुए, जिला किन्नौर की समस्त पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के परिसीमन को संलग्न सूची अनुसार अन्तिम रूप से प्रकाशित करता हूँ।

गोपाल चन्द (भा0प्र0से0),
उपायुक्त,
जिला किन्नौर, हि0प्र0।

पंचायत समिति निचार, सदस्यों की निर्धारित संख्या-15, तहसील निचार, जिला किन्नौर, (हि0प्र0)

क्र० सं०	निर्वाचन क्षेत्र ग्राम सभा का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार/परिभाषित
1.	1-रूपी	1-रूपी	ग्राम सभा रूपी सालम
2.	2-छोटा कम्बा	2-छोटा कम्बा	ग्राम सभा छोटा कम्बा सालम
3.	3-काफनू	3-काफनू	ग्राम सभा काफनू सालम व ग्राम सभा नाथपा सालम

4.	4—यांगपा	4—यांगपा	ग्राम सभा यांगपा सालम
5.	5—कटगांव	5—कटगांव	ग्राम सभा कटगांव सालम
6.	6—चगांव	6—चगांव	ग्राम सभा चगांव सालम
7.	7—उरनी	7—उरनी	ग्राम सभा उरनी सालम
8.	8—मीरू	8—मीरू	ग्राम सभा मीरू सालम व ग्राम सभा यूला सालम।
9.	9—रामणी	9—रामणी	ग्राम सभा रामनी सालम व ग्राम सभा पूनंग सालम।
10.	10—पानवी	10—पानवी	ग्राम सभा पानवी सालम
11.	11—निचार	11—निचार	ग्राम सभा निचार सालम
12.	12—सुंगरा	12—सुंगरा	ग्राम सभा सुंगरा सालम
13.	13—पौण्डा	13—पौण्डा	ग्राम सभा पौण्डा सालम
14.	14—बरी	14—बरी	ग्राम सभा बरी सालम
15.	15—तराण्डा	15—तराण्डा	ग्राम सभा तराण्डा सालम

हस्ताक्षरित /—
उपायुक्त,
जिला किन्नौर हि0प्र0।

पंचायत समिति पूह, सदस्यों की निर्धारित संख्या—15, तहसील पूह, मूरंग/उप—तहसील यंगथंग,
जिला किन्नौर, (हि0 प्र0)

क्र0 सं0	निर्वाचन क्षेत्र ग्राम सभा का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार/परिभाषित
1.	1 शलखर	1 शलखर	ग्राम सभा क्षेत्र शलखर सालम और ग्राम सभा सुमरा सालम
2.	2 चांगो	2 चांगो	ग्राम सभा क्षेत्र चांगो सालम
3.	3 नाको	3 नाको	ग्राम सभा क्षेत्र नाको सालम और ग्राम सभा क्षेत्र नमज़ा सालम
4.	4 लियो	4 लियो	ग्राम सभा क्षेत्र लियो सालम और ग्राम सभा हांगो सालम
5.	5 पूह	5 पूह	ग्राम सभा क्षेत्र पूह सालम
6.	6 ज़ाबुग	6 ज़ाबुग	ग्राम सभा क्षेत्र ज़ाबुग सालम और ग्राम सभा क्षेत्र रोपा सालम
7.	7 सुन्नम	7 सुन्नम	ग्राम सभा क्षेत्र सुन्नम सालम
8.	8 स्पीलो	8 स्पीलो	ग्राम सभा क्षेत्र स्पीलो सालम और ग्राम सभा क्षेत्र नेसंग सालम
9.	9 कानम	9 कानम	ग्राम सभा क्षेत्र कानम सालम और ग्राम सभा क्षेत्र लाबरंग सालम
10.	10 मूरंग	10 मूरंग	ग्राम सभा क्षेत्र मूरंग सालम
11.	11 ठंगी	11 ठंगी	ग्राम सभा क्षेत्र ठंगी सालम और ग्राम सभा क्षेत्र चारंग सालम
12.	12 रिब्बा	12 रिब्बा	ग्राम सभा क्षेत्र रिब्बा सालम
13.	13 जंगी	13 जंगी	ग्राम सभा क्षेत्र जंगी सालम और ग्राम सभा क्षेत्र रिस्पा सालम
14.	14 रारंग	14 रारंग	ग्राम सभा क्षेत्र रारंग सालम

15.	15 लिप्पा	15 लिप्पा	ग्राम सभा क्षेत्र लिप्पा सालम और ग्राम सभा क्षेत्र आसरंग सालम
-----	-----------	-----------	---

उपायुक्त,
जिला किन्नौर हि0प्र0।

पंचायत समिति का नाम कल्पा, सदस्यों की निर्धारित संख्या-15, तहसील कल्पा, मूरंग/उप-तहसील सांगला, जिला किन्नौर, (हि0 प्र0)

क्र0 सं0	निर्वाचन क्षेत्र ग्राम सभा का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार/परिभाषित
1.	1. पांगी	1. पांगी	ग्राम सभा क्षेत्र पांगी सालम
2.	2. कोठी	2. कोठी	ग्राम सभा क्षेत्र कोठी सालम
3.	3. खवांगी	3. खवांगी	ग्राम सभा क्षेत्र खवांगी सालम तथा तेलंगी सालम
4.	4. पोवारी	4. पोवारी	ग्राम सभा क्षेत्र पोवारी सालम तथा पूर्वनी सालम
5.	5. बारंग	5. बारंग	ग्राम सभा क्षेत्र बारंग सालम तथा मेबर सालम
6.	6. रकछम	6. रकछम	ग्राम सभा क्षेत्र रकछम सालम तथा छितकुल सालम।
7.	7. थैमगारंग	7. थैमगारंग	ग्राम सभा क्षेत्र थैमगारंग सालम तथा बटसेरी सालम।
8.	8. सांगला	8. सांगला	ग्राम सभा क्षेत्र सांगला सालम
9.	9. कामरू	9. कामरू	ग्राम सभा क्षेत्र कामरू सालम
10.	10. शौंग	10. शौंग	ग्राम सभा क्षेत्र शौंग सालम तथा चांसू सालम
11.	11. ब्रुआ	11. ब्रुआ	ग्राम सभा क्षेत्र ब्रुआ सालम
12.	12. सापनी	12. सापनी	ग्राम सभा क्षेत्र सापनी सालम
13.	13. किल्बा	13. किल्बा	ग्राम सभा क्षेत्र किल्बा सालम
14.	14. दूनी	14. दूनी	ग्राम सभा क्षेत्र दूनी सालम दूनी रोधी सालम
15.	15. कल्पा	15. कल्पा	ग्राम सभा क्षेत्र कल्पा सालम तथा शुद्धारंग सालम

हस्ताक्षरित/—
उपायुक्त,
जिला किन्नौर हि0प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 15/2020

तारीख मरजुआ : 16-11-2020

तारीख पेशी : 28-12-2020

प्रभा शर्मा पुत्री श्री केशव राम, निवासी ग्राम नलग, डाकघर पाहल, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)।

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थिया प्रभा शर्मा पुत्री श्री केशव राम, निवासी ग्राम नलग, डाकघर पाहल, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के

साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा नलग में प्रार्थिया का नाम प्रभू पुत्री श्री केशव राम दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग, पहचान-पत्र व ब्यानात वाशिन्दगान देह के अनुसार प्रार्थिया का नाम प्रभा शर्मा पुत्री श्री केशव राम है जो कि सही है।

जिस बारे प्रार्थिया उपरोक्त उक्त प्रकरण पर बजरिया इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 28-12-2020 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 28-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 16/2020

तारीख मरजुआ : 16-11-2020

तारीख पेशी : 28-12-2020

श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री दिवलू, निवासी ग्राम पतशाल कलां, डाकघर कालीहटी, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)।

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री दिवलू, निवासी ग्राम पतशाल कलां, डाकघर कालीहटी, उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा पतशाल कलां में प्रार्थिया का नाम सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 श्री दिवलू दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि प्रार्थिया द्वारा दिए गए दस्तावेजों जैसे शपथ-पत्र, परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, फोटो मतदाता पर्ची, राशन कार्ड, प्रमाण-पत्र व ब्यानात वाशिन्दगान देह के अनुसार प्रार्थिया का नाम श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री दिवलू है जो कि सही है।

जिस बारे प्रार्थिया उपरोक्त उक्त प्रकरण पर बजरिया इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 28-12-2020 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 28-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री रमेश चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 09/2020

तारीख संस्थापन : 17-07-2020

तारीख फैसला : 21-12-2020

श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री धर्म दत्त, गांव बटावड़ा, डाकघर कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरखास्त।

श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री धर्म दत्त, गांव बटावड़ा, डाकघर कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2016-17, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कुमारसैन के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 132/244, बराए राजस्व रिकार्ड महाल खेखर में उसका नाम देविन्द्र दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाये गए सबूतों के अनुरूप विरेन्द्र कुमार है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त खेखर के राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जावें।

यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट गिरदावर हल्का कुमारसैन को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का नाम पटवार वृत्त खेखर के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है। जिसे देविन्द्र के स्थान पर विरेन्द्र कुमार दर्ज करने की अनुशंसा व्यक्त की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में देविन्द्र के स्थान पर विरेन्द्र कुमार दर्ज कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो मिति 21-12-2020 को 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 10-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

रमेश चन्द,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 11/2020

तारीख संस्थापन : 26-10-2020

तारीख फैसला : 23-12-2020

श्री राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री इन्द्र दास, निवासी गांव घुमाना, डाकघर ओडी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

श्री मनजीत पुत्र स्व० श्री भगवान दास, निवासी गांव घुमाना, डाकघर ओडी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि० प्र०, 2. श्री विनय कुमार पुत्र स्व० श्री भगवान दास, निवासी गांव घुमाना, डाकघर ओडी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि० प्र०।

विषय.—राजस्व कागजात में दुरुस्ती इन्द्राज दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

श्री राजेन्द्र पुत्र स्व० श्री इन्द्र दास, निवासी गांव घुमाना, डाकघर ओडी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि० प्र० ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2017-18 सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त जार के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं० 45 मिन/98, खसरा नं० 179, रकबा तादादी 00-34-02 है० बराए मौका उनके कब्जे में चला आ रहा है जबकि कागजात माल में प्रत्यार्थी भगवान दास काबिज दर्ज किया गया है जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी संलग्न कर रखी है।

यह मिसल इस न्यायालय से छानबीन व रिपोर्ट हेतु गिरदावर हल्का कुमारसैन को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, भगवान दास का नाम पटवार वृत्त जार काश्त एवं कब्जा में काबिज दर्ज है जिसे भगवान दास के स्थान पर काश्त कब्जा स्वयं दर्ज करने की अनुशंसा की है। प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी है। भगवान दास के पुत्रों श्री मनजीत व श्री विनय कुमार के मौका ब्यानात अनुसार हमारा उक्त खसरा नं० पर कोई कब्जा न है तथा इसमें दुरुस्ती करने पर हमारा कोई एतराज न है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र पुत्र स्व० श्री इन्द्र दास, निवासी गांव घुमाना, डाकघर ओडी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि० प्र० का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मौजा राहू में संशोधित कर लिया जावे तो इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो मिति 23-12-2020 को 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा निर्धारित तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने पर उक्त काबिजान को मालकान माल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 25-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि० प्र०।

**In the Court of Shri Manoj Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Sh. Tek Singh s/o Sh. Lekh Ram, r/o Village Chalhog, P.O. Shakrah, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Sh. Tek Singh s/o Sh. Lekh Ram, r/o Village Chalhog, P.O. Shakrah, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his daughter named— Sakshi Verma d/o Sh. Tek Singh s/o Sh. Lekh Ram, r/o Village Chalhog, P.O. Shakrah, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Shakrah, District Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Ms. Sakshi Verma	Daughter	05-12-2005

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Shakrah, District Shimla, may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 23-11-2020 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा पंजीकरण शादी श्री अवतार सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना व मनजीत कौर पुत्री सुखदेव, वासी सन्तोषगढ़, तहसील व जिला ऊना।

बनाम

आम जनता

इश्तहार मुश्त्री मुनादी आवेदन—पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004.

प्रार्थी श्री अवतार सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना व मनजीत कौर पुत्री सुखदेव, वासी सन्तोषगढ़, तहसील व जिला ऊना ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 15-10-2019 को गांव ललड़ी में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत ललड़ी में दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया मुश्त्री मुनादी इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 07-12-2020 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी के बाद कोई भी उजर/एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा शादी पंजीकरण बारे सम्बन्धित पंचायत को आदेश दे दिए जाएंगे और मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0

इश्तहार मुश्री मुनादी जेर धारा-23 भू-राजस्व अधिनियम, 1954

दरखास्त बमुराद गुमशुद्धा।

चूहड सिंह पुत्र रिखी राम, वासी वढेडा, तहसील हरोली, जिला ऊना का इन्ताक उसके वारसान के नाम करने बारे।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी छिन्दो देवी पत्नी चूहड सिंह, वासी बढेडा, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसके पति चूहड सिंह पुत्र रिखी राम वर्ष 2008 से लापता है। जिसकी बरास्त का इन्तकाल उसके वारसान श्रीमती छिन्दो देवी पत्नी, यशपाल सिंह पुत्र, रमा देवी, परमिन्दर कौर पुत्रियों के नाम करने बारे प्राप्त हुआ है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त चूहड सिंह पुत्र रिखी राम, वासी धर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना के वारसान के नाम इन्तकाल दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 17-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आये न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जायेगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री नितीश भारद्वाज पुत्र श्री खेम राज शर्मा, वासी गांव भटेड, उप-तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

श्री नितीश भारद्वाज पुत्र श्री खेम राज शर्मा, वासी गांव भटेड, उप-तहसील भरवाई, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरखास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती अंजली शर्मा पुत्री श्री मदन लाल शर्मा, गांव हमीरपुर, तहसील व जिला हमीरपुर में दिनांक 11-12-2018 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 18-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री कुलबीर सिंह पुत्र श्री मेंहंगा सिंह, वासी गांव दिलवां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

श्री कुलबीर सिंह पुत्र श्री मेंहंगा सिंह, वासी गांव दिलवां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरखास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती सुमती नायक पुत्री श्री बैकुंठा नाथ नायक, वासी गांव एकताल दुरदुरा, जिला नयागढ़ ओड़िसा में दिनांक 14-02-2018 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-12-2020 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 17-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, घनारी, तहसील घनारी, ऊना, जिला ऊना
(हि0 प्र0)**

विवाह पंजीकरण—घनारी/2020

श्री अमन ठाकुर पुत्र श्री अश्वनी कुमार, निवासी गांव व डाकघर अम्बोआ, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

अखबारी इश्तहार/मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

श्री अमन ठाकुर पुत्र श्री अश्वनी कुमार, निवासी गांव व डाकघर अम्बोआ, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी शादी श्रीमती सुरुची ठाकुर पुत्री श्री प्रवीन सिंह, निवासी गांव व डाकघर गगरेट, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ दिनांक 04-10-2019 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज हुई थी परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत अम्बोआ के अभिलेख में नहीं करवाया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि बारे शपथ-पत्र व दोनों के आधार कार्ड व प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत अम्बोआ द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के साथ दायर किये हैं। रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार विवाह पंजीकरण/सचिव, ग्राम पंचायत अम्बोआ के अनुसार उक्त शादी सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज न है अब प्रार्थी अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2020 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही करके नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
घनारी, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, घनारी, तहसील घनारी, ऊना, जिला ऊना
(हि0 प्र0)

विवाह पंजीकरण-घनारी/2020

श्री कृष्ण गोपाल पुत्र स्व0 श्री यशपाल, निवासी गांव व डाकघर भंजाल, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

अखबारी इश्तहार/ मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

श्री कृष्ण गोपाल पुत्र स्व० श्री यशपाल, निवासी गांव व डाकघर भंजाल, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि० प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी शादी श्रीमती मधु बाला पुत्री तरसेम लाल, निवासी गांव व डाकघर घन्डावल, तहसील व जिला ऊना (हि० प्र०) के साथ दिनांक 19-02-2000 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज हुई थी परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत भंजाल लोअर के अभिलेख में नहीं करवाया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि बारे शपथ-पत्र व दोनों के आधार कार्ड व प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत भंजाल लोअर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के साथ दायर किये हैं। रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार विवाह पंजीकरण/सचिव, ग्राम पंचायत के अनुसार उक्त शादी सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज न है अब प्रार्थी अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इशतहार/मुश्ट्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2020 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही करके नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम/नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 21-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
घनारी, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि० प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़,
जिला ऊना (हि० प्र०)

(नोटिस : जेरे आदेश 5, नियम 20, सी०पी०सी०)

श्रीमती जानकी देवी

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

जमादार उप-तहसील दुलैहड़।

श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व० श्री वन्ता सिंह, निवासी गांव व डाकघर पोलियांबीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना द्वारा इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री निशा कुमारी पुत्री बन्ता सिंह का जन्म गांव व डाकघर पोलियांबीत में दिनांक 04-08-1974 को हुआ था। परन्तु इस बारे पंचायत अभिलेख में अज्ञानता के कारण उसके द्वारा उसकी पुत्री का जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने की नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 17-12-2020 को प्रातः दस बजे से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर/एतराज मान्य न होगा तथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-11-2020 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

इश्तहार मुश्त्री मुनादी आवेदन—पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004.

किस्म मुकद्दमा: पंजीकरण शादी श्री दिलबाग सिंह पुत्र अशोक कुमार, वासी पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना व प्रयिकां देवी पुत्री जोग राज, वासी वढेडा तहसील हरोली, जिला ऊना।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री दिलबाग सिंह पुत्र अशोक कुमार, वासी पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना व प्रयिकां देवी पुत्री जोग राज, वासी वढेडा तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 11-03-2016 को गांव पालकवाह में हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत पालकवाह में दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया मुश्त्री मुनादी इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 18-12-2020 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है निर्धारित तारीख पेशी के बाद कोई भी उजर/एतराज इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा शादी पंजीकरण बारे सम्बन्धित पंचायत को आदेश दे दिए जाएंगे और मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

